

Printed from

नवभारत टाइम्स

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

फिर खिसकी बिड की तारीख

28 Dec 2010, 0400 hrs IST

एनबीटी न्यूज़।। फरीदाबाद

काफी समय पहले बनी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे योजना अब भी साकार नहीं हो पाई हैं। इस योजना के लिए 27 दिसंबर को बिड की जानी थी, लेकिन एक बार फिर उसकी तारीख टल गई। नई तारीख अब 27 जनवरी 2011 मुकर्रर की गई है, जब कंपनियां टेंडर के लिए अपने आवेदन देंगी।

इस योजना से लाखों लोगों को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। अधिकारियों ने यह भी डिसाइड नहीं किया है कि किस कंपनी से ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया जाए। हालांकि इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है लेकिन अभी प्रोजेक्ट के पूरी तरह से शुरू होने में समय लगेगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका कार्य लगभग 1 साल पहले शुरू हो जाना था। इससे पहले बिड की तारीख 15 जुलाई रखी गई थी, लेकिन बिड नहीं हो पाई। इसके बाद अब 27 दिसंबर को भी हालात नहीं बने। अब इसके लिए अगले महीने की 27 तारीख तय की गई है।

क्या है प्रोजेक्ट

सोनीपत से लेकर फरीदाबाद तक बनने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे योजना के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। इस योजना की जमीन का अधिग्रहण लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। 135 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे एनएच-1 कुंडली (सोनीपत) से यमुना पार करने के बाद माविकलन, शरफाबाद के पास हिंडन नदी से एनएच-58 के दुहाई से होता हुआ दासना के पास एनएच-24 पर मिलेगा। यहां से यह एक्सप्रेस-वे एनएच-59 पर बीलकबरपुर के पास से होता हुआ कासना -सिकंद्राबाद रोड (सिरसा के निकट) से यमुना के ऊपर से होता हुआ फज्जपुर ाादर, अटाली छांयसा (मौजपुर के पास) एनएच- 2 पर पलवल पहुंचेगा। इस एक्सप्रेस वे पर 3 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे जिनमें से दो ब्रिज यमुना नदी के ऊपर और एक ब्रिज हिंडन नदी के ऊपर बनेगा। इनके अलावा 43 ब्रिज व 59 अंडरपास बनाए जाने की योजना है।

कोट

किन्हीं कारणों से सोमवार को बिड नहीं हो पाई और अब 27 जनवरी को बिड कराई जाएगी। इस दिन रोड बनाने वाली कंपनियों से आवेदन भरवाए जाएंगे। उसके बाद आवेदनों में से तय किया जाएगा कि किस कंपनी को टेंडर दिया जाए। उसके बाद ही रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। -मनोज कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई

[इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।](#)

[इस आर्टिकल को ट्वीट करें।](#)

[देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।](#)

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2010 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768